



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 10—सितम्बर 16, 2011 (भाद्रपद 19, 1933)

No. 37] NEWDELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 10—SEPTEMBER 16, 2011 (BHADRA 19, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

### [PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110101, दिनांक 28 जुलाई 2011

सं. ए-22012/1/2011-पीएमई--श्री आशीष गुप्ता, भा. पु. से. (यूपी : 1989) की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप, उन्होंने दिनांक 23 जुलाई, 2011 (अपराह्न) से प्रधान मंत्री कार्यालय में निदेशक के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।।

पी.के. बाली, अवर सचिव

के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

2. श्री जिलउर रहमान हैदर की नियुक्ति राज्य सभा पटल पर रखे जाने वाले प्रपत्रों से संबंधी समिति के वर्तमान अध्यक्ष के विवेकाधीन है और उनके कार्यकाल के समापन के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 11 अगस्त 2011

सं. आरएस./6/4/2011/69-कार्मिक--श्री जिलउर रहमान हैदर को 3 अगस्त, 2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक के लिए सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों से संबंधी समिति के अध्यक्ष (श्री तारिक अनवर) के वैयक्तिक स्टाफ में सह-पदावसान आधार पर 15,600--39,100/- रु.

दिनांक 19 अगस्त 2011

सं. आरएस./6/4/2011/72-कार्मिक--श्री नरेन्द्र सिंह को 5 अगस्त, 2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक के लिए राज्य सभा सचिवालय में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति के अध्यक्ष (डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी) के वैयक्तिक स्टाफ में 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 तथा 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन में वरिष्ठ निजी सचिव नियुक्त किया गया है।

2. श्री नरेन्द्र सिंह की नियुक्ति कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति के वर्तमान अध्यक्ष के विवेकाधीन है और उनके कार्यकाल के समापन के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2011

सं. ए-12034/1/2009-प्रशा.-IV (वि.का.) खंड-III--डॉ. एम. वीरप्पा मोइली के दिनांक 13.07.2011 को विधि और न्याय मंत्री के पद का कार्यभार छोड़ दिए जाने पर और कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 02.08.1979 के का.ज्ञा. सं. 10/20/97-सी.एस.-II में दिए गए अनुदेशों के अनुसार, भूतपूर्व विधि और न्याय मंत्री (डॉ. एम. वीरप्पा मोइली) के अपर निजी सचिव श्री एम. रामकृष्ण रेड्डी को दिनांक 13.07.2011 से दिनांक 11.08.2011 तक की 30 दिन की समापन अवधि प्रदान की जाती है।

आशा सोय, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 अगस्त 2011

सं. आई-14011/3/2010-आईपीएस-1(I)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 23.08.2011 को चयन समिति की दिनांक 27.12.2010 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2007-ए और 2008 की उन चयन सूचियों को अनुमोदित कर दिया है जिनमें भारतीय पुलिस सेवा के बिहार संवर्ग में वर्ष 2011 में 5 एवं 8 कुल 13 मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु बिहार पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है :--

चयन सूची-2007 ए

क्र. नाम सं.	जन्म तिथि
(सर्व/श्री)	
1. दयानन्द कुमार	01.04.1953
2. असगर इमाम	23.03.1957
3. सुधीर कुमार	23.12.1956
4. प्रकाश कुमार सिन्हा	06.04.1953
5. अजीत कुमार राय	25.11.1957

चयन सूची--2008

क्र. नाम सं.	जन्म तिथि
(सर्व/श्री)	
1. मो. मंसूर अहमद	01.12.1956
2. मो. रहमान	20.01.1960
3. मिर्दू प्रसाद	01.02.1955
4. सुकन पासवान	18.01.1957
5. वरुण कुमार सिन्हा	06.01.1957
6. चन्द्रिका प्रसाद	21.07.1957
7. विनोद कुमार नं. 2	02.10.1961
8. सौरभ कुमार	05.01.1959

बलदेव राज, अवर सचिव

सं. आई-14011/3/2010-आईपीएस-1(II)--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत बिहार संवर्ग प्रदान करते हैं :--

चयन सूची-2007-ए

क्र. नाम सं.	जन्म तिथि
(सर्व/श्री)	
1. दयानन्द कुमार	01.04.1953
2. असगर इमाम	23.03.1957
3. सुधीर कुमार	23.12.1956
4. प्रकाश कुमार सिन्हा	06.04.1953
5. अजीत कुमार राय	25.11.1957

## चयन सूची-2008

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
	(सर्व/श्री)	
1.	मो. मंसूर अहमद	01.12.1956
2.	मो. रहमान	20.01.1960
3.	मितू प्रसाद	01.02.1955
4.	सुकन पासवान	18.01.1957
5.	वरुण कुमार सिन्हा	06.01.1957
6.	चन्द्रिका प्रसाद	21.07.1957
7.	विनोद कुमार नं. 2	02.10.1961
8.	सौरभ कुमार	05.01.1959

2. यह नियुक्तियां अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

बलदेव राज, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई 2011

सं. 13017/46/2005-अ.भा.से. (I)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नागालैंड सरकार की सहमति से केन्द्र सरकार श्री महाथुंग किथन, भा.प्र.से. (हरियाणा : 86) की हरियाणा से नागालैंड संवर्ग में अंतर संवर्गीय प्रतिनियुक्ति को 16.05.2011 से आगे दो वर्ष और आठ महीने की अवधि के लिए अर्थात् जनवरी, 2014 में उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक बढ़ाने हेतु एतद्वारा अनुमोदन प्रदान करती है।

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 2011

सं. 14012/09/2010-अ.भा.से. (III)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश संवर्ग में रखे गए भारतीय प्रशासनिक

सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में, उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से नियमित करती है :--

क्रम सं.	नाम	बैच	स्थायी करने की तारीख
1.	डॉ. गौरव उप्पल	2005	22.08.2007
2.	श्री इलम्बरिथि के.	2005	22.08.2007
3.	डॉ. एन. युवराज	2005	22.08.2007
4.	श्रीमती एम. जानकी	2005	22.08.2007
5.	श्री के. मनीका राज	2005	22.08.2007
6.	श्री मुदावतु एम. नायक	2005	22.08.2007

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

सं. 14012/11/2010-अ.भा.से. (III)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश संवर्ग में रखे गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में, उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से नियमित करती है :--

क्रम सं.	नाम	बैच	स्थायी करने की तारीख
1.	सुश्री कंचन वर्मा	2005	22.08.2007
2.	श्री सुरेन्द्र सिंह	2005	22.08.2007
3.	श्री लोकेश एम.	2005	22.08.2007
4.	श्री गोविंदराजु एन. एस.	2005	22.08.2007
5.	श्री गुराला श्रीनिवासुलु	2005	22.08.2007

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

सं. 14012/04/2011-अ.भा.से. (III)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश संवर्ग में रखे गए भारतीय प्रशासनिक

सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में, उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से नियमित करती हैं :--

क्रम सं.	नाम	बैच	स्थायी करने की तारीख
(सर्वश्री)			
1.	डी. रोनाल्ड रोस	2006	29.08.2008
2.	गोरेला स्वर्ण पांडा दास	2006	29.08.2008
3.	प्रवीण कुमार	2006	29.08.2008
4.	(सुश्री) सुजाता शर्मा	2006	29.08.2008

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 24 अगस्त 2011

सं. ए-32013/1/2011-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु उनका चयन हो जाने के परिणामस्वरूप, श्री रवि कोट्य, भा.प्र.से. (एएम : 93) को उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति अर्थात् 19 अगस्त, 2011 के अपराह्न से 19.03.2013 तक की शेष अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त करती हैं।

प्रिया महादेवन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 25 अगस्त 2011

सं. 14015/24/2010-अ.भा.से.-(I)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, चयन सूची 2009-क (2009 की रिक्तियों पर) की रिक्तियों पर राज्य सरकार के परामर्श से उक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति कोट्य रिक्तियों का भरणे के लिए 1 जुलाई, 2011 को विनियम 5(5) के अंतर्गत तैयार की गई तथा 8 अगस्त, 2011 को विनियम 7(2) के अंतर्गत अनुमोदित की गई निम्नलिखित नामों वाली पश्चिम बंगाल राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की चयन सूची को अधिसूचित करती हैं :--

चयन सूची 2009-क (वर्ष 2009 की रिक्तियों पर)

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
1	2	3
(सर्वश्री)		
1.	श्रीमती मधुमिता राय	15.08.1957
2.	श्रीमती नीता नंदी	22.04.1955
3.	दुर्गादास गोस्वामी	29.04.1957

1	2	3
4.	सौविक सुकुमार मजुमदार	31.03.1956
5.	अमलेश पाठक	31.12.1957
6.	पासंग नोरबू भूटिया (अ.ज.जा.)	02.02.1958
7.	दीनबंधु भट्टाचार्या	23.09.1957

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/24/2010-अ.भा.से.-(I)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परीवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, चयन सूची 2009-क (2009 की रिक्तियों पर) हेतु राज्य सरकार के परामर्श से उक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में पश्चिम बंगाल राज्य सिविल सेवा संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों का अगले आदेशों तक, परीवीक्षा पर नियुक्त करती हैं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल संवर्ग में उनका आबंटन करती हैं :--

चयन सूची 2009-क (वर्ष 2009 की रिक्तियों पर)

क्र. सं.	नाम
(सर्वश्री)	
1.	श्रीमती मधुमिता राय
2.	श्रीमती नीता नंदी
3.	दुर्गादास गोस्वामी
4.	सौविक सुकुमार मजुमदार
5.	अमलेश पाठक
6.	पासंग नोरबू भूटिया (अ.ज.जा.)
7.	दीनबंधु भट्टाचार्या

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 अगस्त 2011

सं. ए-32012/1/2011-ई.-II--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 मई 2011 और 4 अगस्त, 2011 के का.ज्ञा. सं. 3/1/2011- सीएस-II(ए) के अनुसरण में, राष्ट्रपति द्वारा वाणिज्य विभाग के सीएसएसएस संवर्ग के स्थायी निजी सचिव श्री के. सुन्दर को वाणिज्य विभाग में 15,600--39,100/- रुपए के वेतनमान + 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन में वाणिज्य विभाग में तदर्थ

आधार पर प्रधान निजी सचिव (पीपीएस) के पद पर पीपीएस के पद के प्रभार को ग्रहण करने की तारीख से 3.09.2011 तक की अवधि के लिए अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

2. श्री के सुन्दर की नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा पीपीएस के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

एस. के. शर्मा, अवर सचिव

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 अगस्त 2011

सं. 7/2010 फा. सं. 6/2530/2010/पेंशन/एच.आर.डी.-1/3344--  
इस महानिदेशालय में कार्यरत श्री राम कुमार डागर, विदेश व्यापार विकास अधिकारी (अनुभाग अधिकारी, सी.एस.एस.) का दिनांक 23 जुलाई, 2011 को देहांत हो गया है।

आर. एस. बिष्ट, उप महानिदेशक, विदेश व्यापार

विकास आयुक्त का कार्यालय

कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र (सीएसईजेड)

कोचीन-682037, दिनांक 25 जून 2010

केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी) नियमावली, 1965 के नियम 5(1) के अंतर्गत जारी सेवा समाप्ति का नोटिस

सं. 01/20/2009: प्रशा. सीएसईजेड--केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 के नियम 5 के उप नियम (1) के अनुसरण में, मैं श्री चन्द्रन चिरामेल, उप विकास आयुक्त श्री धनीज एंटनी, सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षु को एतद्वारा इस आशय का नोटिस देता हूँ कि उन्हें यह नोटिस तामील किए जाने अथवा प्रेषित किए जाने, जैसी भी स्थिति हो, की तारीख से एक माह की अवधि की समाप्ति की तारीख को उनकी सेवाएं समाप्त समझी जाएंगी।

सेवा में,

श्री धनीज एंटनी

सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षु, सीएसईजेड,

कोचीन (पायानादेथ हाउस), पोन्नारीमंगलम,

पो.ओ.-मुलवुकड, पिन-862504

हस्ता. अपठनीय

नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 अगस्त 2011

सं. 06/2011 (ए-12022/8/2010-स्था.)--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11 अगस्त, 2011 के आदेश सं. 5/7/2011-सीएस.-1(यू) के अनुसरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय संवर्ग के अनुभाग अधिकारी श्री ईश्वर शरण को 19 अगस्त, 2011 के

पूर्वाह्न से वस्त्र मंत्रालय में तदर्थ आधार पर सीएसएस के ग्रेड 1 में (अवर सचिव) नियुक्त करते हैं।

इंद्रजीत सिंह, निदेशक

दिनांक 24 अगस्त 2011

सं. 07/2011 (ए-12022/8/2011-स्था.)--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11 अगस्त, 2011 के आदेश सं. 5/7/2011-सीएस.-1(यू) के अनुसरण में मानव संसाधन विकास मंत्रालय संवर्ग के अनुभाग अधिकारी श्री प्रवीण जारगर को 24 अगस्त, 2011 के पूर्वाह्न से वस्त्र मंत्रालय में तदर्थ आधार पर सीएसएस के ग्रेड-1 में (अवर सचिव) नियुक्त करते हैं।

इंद्रजीत सिंह, निदेशक

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 अगस्त 2011

सं. ए-12011/11/2006-स्था.--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01 जुलाई, 2011 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/8/2006-सीएस-II के अनुसरण में, राष्ट्रपति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के नियमित आशुलिपिक ग्रेड 'ग' श्री जे. के. टंडन की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के के. स.आ.से. संवर्ग के निजी सचिव 'क और ख' (विलयित) के रूप में तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 31.08.2011 तक की अवधि के लिए अथवा के.स.आ. सेवा संवर्ग (सीएसएसएस) के नियमित आशुलिपिकों ग्रेड 'क एवं ख' (विलयित) के उपलब्ध होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, और बढ़ाती हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की तदर्थ नियुक्ति को जारी रखना पूर्णतया तदर्थ आधार पर है और यह नियुक्ति उन्हें इस ग्रेड पर अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के 'क और ख' ग्रेड (विलयित) (निजी सचिव) में नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने या वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

अरूणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

दिनांक 18 अगस्त 2011

सं. ए-32011/01/2004-स्था.--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.08.2011 के आदेश संख्या 5/7/2011-सीएस.-1(यू) के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को 11.08.2011 (पूर्वाह्न) से 31.05.2012 या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, 15,600--39,100 रुपये के वेतन बैंड-3+ग्रेड वेतन 6,600/- रुपये में, तदर्थ आधार पर सीएसएस के ग्रेड-1 (अवर सचिव) के रूप में नियुक्त करती हैं:-

1. श्रीमती वीना दीवान (सीएसएस सं. 6947)

2. श्री अखिलेश कुमार (सीएसएस सं. 7021)

2. उपर्युक्त नियुक्ति सर्वथा तदर्थ आधार पर है और उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची

में शामिल करने या ग्रेड-1 में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

अरूणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

#### कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 अगस्त 2011

सं. ए-15012/01/2005-प्रशा./स्था.(खंड)--कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11 अगस्त, 2011 के आदेश सं. 5/7/2011-सी.एस.-1 (यू.) के अनुसरण मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग में अनुभाग अधिकारी, श्री ए. के. दास (सीएसएल सं. 6901) को कोयला मंत्रालय में सी.एस.एस. के ग्रेड-1 (अवर सचिव) में 24.08.2011 के कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. में उल्लिखित शर्तों के अधधीन 11 अगस्त, 2011 (पूर्वाह्न) से 31.05.2012 तक अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, अथवा अगले आदेशों तक पूर्ण रूप से तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता है।

आनन्द प्रकाश, अवर सचिव

#### खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 अगस्त 2011

सं. 03/02/2006-स्था.--राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 31.05.2011 के कार्यालय आदेश संख्या 5/18/2010-रा. भा. के अनुसरण में श्री बीरेन्द्र सिंह रावत को 11.07.2011 की पूर्वाह्न से खान मंत्रालय में सहायक निदेशक (राजभाषा) के रूप में नियुक्त करते हैं।

नीता गुप्ता, अवर सचिव

#### भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(लोक उद्यम विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 24 अगस्त 2011

सं. ए-19012/159/2010-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री दीपंकर नंदी को लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय में दिनांक 18.07.2011 की पूर्वाह्न से वेतन बैंड-4, रु. 37,400--67,000/- में 8,700/- रुपए के ग्रेड वेतन सहित प्रधान स्टाफ अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

जी. एस. बसरो, निदेशक

#### स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110108, दिनांक 25 अगस्त 2011

सं. ए-12025/26/2008-सी.एच.एस.-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. दिगंता सायकिया को दिनांक 08.01.2010 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन

विशेषज्ञ उप-संवर्ग में बाल रोग चिकित्सा की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

सं. ए-12025/47/2009-सी.एच.एस.-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. (श्रीमती) अभिलाषा यादव को दिनांक 09.04.2010 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में मनश्चिकित्सा की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 1 जुलाई 2011

सं. ए-38012/02/2009-ई.-I (आयुष)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, डॉ. ए. कुमार, उप सलाहकार (सिद्ध), आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, 30.06.2011 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए।

चंद्र शेखर, अवर सचिव

#### कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 2011

सं. एल-12011/03/2009-आई. एंड पी.--श्री गोविन्दन नायर, भा.प्र.से. (उ.प्र.-78), प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, अपर सचिव के रैंक और वेतन में अधिवर्षिता की आयु पूर्ण कर दिनांक 31 अगस्त, 2011 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गये।

सेबेस्टियन जोसफ, उप निदेशक (सहकारिता)

नई दिल्ली, दिनांक 25 अगस्त 2011

सं. 4-5/2005-विस्तार--राष्ट्रपति, श्री सी. के. हरिदास, की विस्तार निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में संयुक्त निदेशक (एफआई), जीसीएस, समूह 'क' राजपत्रित के पद पर रुपये 15,600--39,100 के पे बैंड-3 + ग्रेड पे 6,600/- रुपये में तदर्थ आधार पर नियुक्ति को अगले छह महीने की अवधि अर्थात् 01 जुलाई, 2011 से 31 दिसम्बर, 2011 तक अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेश तक जो भी पहले हो, जारी रखते हैं।

2. यह तदर्थ प्रोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा संयुक्त

निदेशक (एफआई) के ग्रेड में वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगी।

आर. एस. वर्मा, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 फरवरी 2011

सं. ए-12022/04/2006-स्था.-I--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अवर सचिवों (सीएसएस की श्रेणी-I) को उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख से ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय में नियमित आधार पर उप सचिव (सीएसएस की चयन श्रेणी) के पद पर नियुक्त करती है:-

(i) श्री एस. वी.एन. पिल्लई-04/02/2011 (पूर्वाह)

(ii) श्री बी.सी. बेहेरा-09/02/2011 (पूर्वाह)

जार्ज वाई., अवर सचिव

दिनांक 25 फरवरी 2011

सं. ए-12022/02/2011-स्था.-I--माननीय राष्ट्रपति, श्री आनंदराव विष्णु पाटिल, भा.प्र.से. (तमिलनाडु : 1998) को ग्रामीण विकास मंत्री श्री विलासराव देशमुख के निजी सचिव (उप सचिव स्तर) के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय में 20.01.2011 (पूर्वाह) से 'पारिविक अंतरण' पर निजी सचिव के रूप में उनकी 5 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि की शेष अवधि के लिए अर्थात् 17.03.2015 तक अथवा मंत्री के साथ सह समाप्य आधार पर अथवा मंत्री के निजी सचिव के रूप में उनका कार्य करना समाप्त करने पर अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करती है।

जार्ज वाई., अवर सचिव

दिनांक 4 अप्रैल 2011

सं. ए-38012/03/2010-स्थापना-I--इस मंत्रालय के उप-सचिव श्री नानक चंद अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर दिनांक 31.3.2011 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

जार्ज वाई., अवर सचिव

सं. ए-38013/07/2010-स्थापना-I--इस मंत्रालय के लेखा अधिकारी श्री एन. सुधाकरण अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर दिनांक 31.3.2011 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

जार्ज वाई., अवर सचिव

दिनांक 20 मई 2011

सं. ए-11013/03/2011-स्था.-I--ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में एक पद (पे बैंड-4 : 37,400--67,000/- रु. + 10,000/- रु. ग्रेड वेतन में आर्थिक सलाहकार अथवा समकक्ष) के सृजन के संबंध में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की दिनांक 18.2.2011 की अधिसूचना सं. 11015/1/2009-आईईएस के अनुसरण में राष्ट्रपति, श्री शक्ति सिंह नेगी, भारतीय आर्थिक सेवा, एसएजी स्तरीय अधिकारी जो एसएजी स्तर पर संचालित एनएफएसजी स्तरीय पद (वैयक्तिक आधार पर) धारित किए हुए हैं एवं वर्तमान में ग्रामीण विकास विभाग में आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं, को 16.3.2011 के पूर्वाह से अगले आदेशों तक नियमित आधार पर नियुक्त करती है।

जार्ज वाई., अवर सचिव

दिनांक 1 जुलाई 2011

सं. ए-19013/5/2009-स्थापना-I--राष्ट्रपति, श्री लालरिनलियाना फनाई, भा.प्र.से. (यूएल : 97) को उनकी कार्य अवधि की शेष अवधि के लिए, जोकि अब 3.8.2015 तक अथवा अगले आदेशों तक होगी, 1 जुलाई 2011 के पूर्वाह से ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय में वैयक्तिक तौर पर निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

जार्ज वाई., अवर सचिव

सं. ए-19013/5/2009-स्थापना-I--राष्ट्रपति, श्री रोहित कुमार, भा.प्र.से. (आरजे : 97) को उनकी कार्य अवधि की शेष अवधि के लिए, जोकि अब 10.11.2014 तक अथवा अगले आदेशों तक होगी, 1 जुलाई 2011 के पूर्वाह से ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय में वैयक्तिक तौर पर निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

जार्ज वाई., अवर सचिव

सं. ए-12023/01/2011-स्था. I--राष्ट्रपति, श्री दीपक आर. तावरे, महाराष्ट्र राज्य सरकार के एक अधिकारी को दिनांक 28.03.2011 से दिनांक 27.03.2014 तक अवर सचिव स्तर पर ग्रामीण विकास मंत्री (श्री विलासराव देशमुख) के विशेष कार्य अधिकारी (ओ.एस.डी.) के रूप में सह-समाप्य आधार पर 3 वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके द्वारा मंत्री के ओ.एस.डी. के रूप में कार्यभार छोड़ने तक अथवा अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए नियुक्त करती है।

जार्ज वाई., अवर सचिव

सं. ए-38013/01/2011-स्था. I--अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर इस मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी श्री आर. पी. सिंह, दिनांक 30.06.2011 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

जार्ज वाई., अवर सचिव

दिनांक 18 जुलाई 2011

सं. ए-12022/4/2010-स्था. I--राष्ट्रपति, श्री एस. पी. वशिष्ठ, आईएफएस (एएम : 94) को 6 जुलाई, 2011 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति आधार पर ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय में निदेशक नियुक्त करती हैं।

जॉर्ज वाई., अवर सचिव

दिनांक 1 अगस्त 2011

सं. ए-38013/03/2011-स्थापना-I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर इस मंत्रालय के सांख्यिकीय अधिकारी, श्री एम.एल. श्रीवास्तव दिनांक 31.7.2011 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

जॉर्ज वाई., अवर सचिव

सं. ए-38013/02/2011-स्थापना-I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर इस मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी, श्री एच. डी. गर्ग दिनांक 31.3.2011 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

जॉर्ज वाई., अवर सचिव

दिनांक 9 अगस्त 2011

सं. ए-12022/5/2011-स्था.-I--राष्ट्रपति, श्री विनील कृष्णा, भा.प्र.से. (उड़ीसा : 2005) को दिनांक 13.07.2011 से उनकी निजी सचिव के रूप में उनकी 5 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि की शेष अवधि के लिए अर्थात् 30.06.2016 तक अथवा ग्रा. वि. मंत्री के साथ सह समाप्य आधार पर अथवा मंत्री महोदय के साथ निजी सचिव के रूप में कार्य भार छोड़ने अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक ग्रामीण विकास मंत्री (श्री जय राम रमेश) के निजी सचिव (अवर सचिव स्तर) के रूप में परवर्ती स्थानांतरण आधार पर नियुक्त करती हैं।

जॉर्ज वाई., अवर सचिव

दिनांक 11 अगस्त 2011

सं. ए-12022/6/2011-स्था.-I--राष्ट्रपति, श्री आर. रमेश को दिनांक 13.07.2011 (पूर्वाह्न) से वेतन बैंड-3, 15,600--39,100/- रु. + 6,600/- रु. ग्रेड वेतन में सह-समाप्य आधार पर अथवा उनके द्वारा ग्रामीण विकास मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में कार्य छोड़ने अथवा अगले आदेशों इनमें से जो भी पहले हो तक माननीय ग्रामीण विकास मंत्री (श्री जय राम रमेश) के अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं।

जॉर्ज वाई., अवर सचिव

नई दिल्ली-110114, दिनांक 29 अप्रैल 2011

सं. ए-12022/04/2006-स्था.-I--राष्ट्रपति, श्रीमती रेणुका कुमार (के.स.से. की ग्रेड-I) को दिनांक 05.04.2011 पूर्वाह्न ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय में नियमित आधार पर उप सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं।

एस. एस. प्रसाद, अवर सचिव

दिनांक 4 मई 2011

सं. ए-12023/1/2011-स्था.-I--राष्ट्रपति, श्री दीपक आर. तावरे, उप पंजीयक, को-ऑपरेशन एण्ड टैक्सटाइल विभाग, महाराष्ट्र सरकार को 20.1.2011 से 27.3.2011 तक की अवधि के लिए सह-समाप्य आधार पर पे बैंड-3 (15,600--39,100/- रु. + 6,600/- रु. (ग्रेड-पे) में ग्रामीण विकास मंत्री (श्री विलासराव देशमुख) का अतिरिक्त निजी सचिव नियुक्त करती हैं।

एस. एस. प्रसाद, अवर सचिव

दिनांक 6 मई 2011

सं. ए-12022/03/2011-स्थापना-I--माननीय राष्ट्रपति, श्री डी. के. जैन, भा.प्र.से. (महाराष्ट्र : 83) को दिनांक 26 अप्रैल 2011 पूर्वाह्न से उनकी 5 वर्ष की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि के लिए अर्थात् 23.3.2013 तक अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, के लिए ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं।

एस. एस. प्रसाद, अवर सचिव

दिनांक 9 मई 2011

सं. ए-22012/01/2011-स्थापना-I--राष्ट्रपति, डॉ. कमला कान्ता त्रिपाठी (भा.आ.से. : 99) को दिनांक 2 मई 2011 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त करती हैं।

एस. एस. प्रसाद, अवर सचिव

भूमि संसाधन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त 2011

सं. ए-12023/1/2010-प्रशासन--राष्ट्रपति, भूमि संसाधन विभाग में कार्यरत डॉ. सी. पी. रेड्डी, सहायक आयुक्त को संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर 8 अगस्त, 2011 के पूर्वाह्न से इस विभाग में 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड/वेतनमान तथा 7,600/- रुपए के ग्रेड वेतन में उपायुक्त (वाटरशेड विकास) के पद पर पदोन्नति के आधार पर नियुक्त करते हैं।

अनूप कुमार, अवर सचिव



## पंचायती राज मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 अगस्त 2011

सं. ए-19011/10/2006-स्था.--महामहिम राष्ट्रपति जी, एस. ए. जी. स्तर के अधिकारी डॉ. अवतार सिंह सहोता को 28 अगस्त, 2011 के पूर्वाह्न से एवं आगामी आदेशों तक पंचायती राज मंत्रालय में रिक्त पड़े आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त करती हैं।

एल. हौकिप, अवर सचिव

## महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 2011

सं. 3-1/2010-प्रशा--ए सी सी के दिनांक 31 मई, 2011 के आदेश सं. 4/11/2011-ईओ(एसएम.1) के अनुसार राष्ट्रपति, सुश्री मीनाक्षी घोष, आईए एण्ड एस (81) को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग में 10,000/- रुपए ग्रेड पे सहित 37,400--67,000/- रुपए (पीबी-4) के वेतनमान में दिनांक 1 जून, 2011 (पूर्वाह्न) से 4 दिसम्बर, 2012 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

नवीन यादव, अवर सचिव

## जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 अगस्त 2011

सं. 12034/4/2011-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री ई. सतीश नायडु, सहायक, ग्रेड-1, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ लिमिटेड (ट्राइफेड) को दिनांक 29.07.2011 (पूर्वाह्न) से अस्थायी तथा को-टर्मिनस आधार पर वेतन बैंड-2 (9,300--34,800/- रुपए + ग्रेड वेतन 4,800/- रुपए) में माननीय जनजातीय कार्य मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव) के सहायक निजी सचिव के पद पर नियुक्त करती हैं।

ए. के. साहा, अवर सचिव

दिनांक 5 अगस्त 2011

सं. 12034/1/2011-स्थापना--राष्ट्रपति, माननीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला) के व्यक्तिगत स्टाफ में वेतन बैंड-2 (9,300--34,800/- रुपए + ग्रेड वेतन 4,800/- रुपए) में दिनांक 20.01.2011 (पूर्वाह्न) से को-टर्मिनस आधार पर तथा अगले आदेशों तक या माननीय जनजातीय कार्य मंत्री को उनकी सेवाओं की आवश्यकताओं तक, जो भी पहले हो, श्री सुखदेव सिंह काजला को प्रथम निजी सचिव के पद पर नियुक्त करती हैं।

ए. के. साहा, अवर सचिव

दिनांक 12 अगस्त 2011

सं. 12034/4/2011-स्थापना(i)--राष्ट्रपति, श्री पाओलिनलाल हाओकिप, अवर सचिव, लोक सभा सचिवालय को पूर्णतः अस्थायी और को-टर्मिनस आधार पर माननीय जनजातीय कार्य मंत्री की पदावधि तक अथवा मंत्री द्वारा उनकी सेवाएं अपेक्षित होने तक अथवा अगले आदेश होने

तक, इनमें से जो भी पहले हो, 02.08.2011 के पूर्वाह्न से, वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपए + ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए) में माननीय जनजातीय कार्य मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव) को अपर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करती हैं।

ए. के. साहा, अवर सचिव

सं. 12034/4/2011-स्थापना (ii)--राष्ट्रपति, श्री एम. बी. सी. विनोद कुमार, नियमित निजी सहायक और निजी सचिव (तदर्थ), संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डाक विभाग को पूर्णतः अस्थायी और को-टर्मिनस आधार पर माननीय जनजातीय कार्य मंत्री की पदावधि तक अथवा मंत्री द्वारा उनकी सेवाएं अपेक्षित होने तक अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 04.08.2011 के पूर्वाह्न से, वेतन बैंड-2 (9,300--34,800/- रुपए + ग्रेड वेतन 4,800/- रुपए) में माननीय जनजातीय कार्य मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव) के प्रथम निजी सहायक के पद पर नियुक्त करती हैं।

ए. के. साहा, अवर सचिव

दिनांक 12 अगस्त 2011

सं. 11019/1/2005-स्थापना--सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 22.06.2011 के कार्यालय आदेश सं. 12015/4/2011-आईएसएस तथा एफओडी, एनएसएसओ, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 19.07.2011 के कार्यालय आदेश सं. ए-32013/02/2010-स्थापना के अनुसरण राष्ट्रपति, श्री सिलादित्य चौधरी को दिनांक 05.08.2011 (पूर्वाह्न) से जनजातीय कार्य मंत्रालय में उप महानिदेशक के पद पर नियुक्त करती हैं।

ए. के. साहा, अवर सचिव

सं. 12034/4/2011-स्थापना--राष्ट्रपति, लोक सभा सचिवालय में सुश्री मालविका मेहता, वरिष्ठ समिति सहायक, को पूर्णतः अस्थायी और को-टर्मिनस आधार पर माननीय जनजातीय कार्य मंत्री की पदावधि तक अथवा मंत्री द्वारा उनकी सेवाएं अपेक्षित होने तक अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 08.08.2011 के पूर्वाह्न से, वेतन बैंड-2 (9,300--34,800/- रुपए + ग्रेड वेतन 4,800/- रुपए) में माननीय जनजातीय कार्य मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव) के सहायक निजी सचिव के पद पर नियुक्त करती हैं।

ए. के. साहा, अवर सचिव

दिनांक 16 अगस्त 2011

सं. 19011/15/2011-स्थापना--राष्ट्रपति, डॉ. (श्रीमती) साधना राउत, आईआईएस (84) को उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की पांच वर्ष की शेष अवधि के लिए अर्थात् 15.07.2015 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए 11.08.2011 के पूर्वाह्न से, वेतन बैंड 37,400--67,000/- रुपए (वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन 10,000/- रुपए) में माननीय जनजातीय कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करती हैं।

ए. के. साहा, अवर सचिव

भारतीय डाक विभाग  
मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, महाराष्ट्र सर्किल  
मुम्बई-400001, दिनांक 21 जुलाई 2011

विषय : सहायक डाक अधीक्षक (सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप 'ख' राजपत्रित) संवर्ग में पदोन्नति और तैनाती।

सं. एसटीए/6-8/2011--मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, महाराष्ट्र सर्किल, मुम्बई निरीक्षक संवर्ग के निम्नलिखित कर्मचारियों को सहायक डाक अधीक्षक (सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप 'ख' राजपत्रित) के पद पर वेतन बैंड-2 रु. 9,300--34,800/- व ग्रेड वेतन रु. 4,600/- के वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से और अगले आदेश तक नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

सहायक डाक अधीक्षक (सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप 'ख' राजपत्रित) के पद पर पदोन्नत किए गए कर्मचारियों को महाराष्ट्र डाक सर्किल में उनके नाम के सामने उल्लेख किये गए क्षेत्र को आंबटित किया जाता है :--

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	सहायक डाक अधीक्षक के पद पर पदोन्नत होने पर जिस क्षेत्र को आंबटित किया गया
1	2	3	4
1.	श्री डी. वाई. देशमुख	उप मंडल निरीक्षक (डाक), कर्जत (अहमद नगर मंडल)	पुणे
2.	श्री डी. बी. सूर्यवंशी	उप मंडल डाक निरीक्षक, दक्षिण उप मंडल, पंढरपुर	पुणे
3.	श्री एन. शास्त्री	उप मंडल निरीक्षक (डाक) उदगिर	औरंगाबाद
4.	श्री एम. ए. पत्की	निरीक्षक डाक, दापोली	गोवा
5.	श्रीमती वी. एस. कापसे	निरीक्षक डाक, कागल उप मंडल (गोवा)	गोवा
6.	श्रीमती एल. डी. कोडवानी	निरीक्षक डाक (स्थानापन्न) सहायक डाक अधीक्षक एस.पी.सी.सी.	डाक प्रबंध
7.	श्री जी. पी. दातार	स्थानापन्न सहायक डाक अधीक्षक, दक्षिण उप मंडल, सोलापुर	पुणे
8.	श्रीमती एस. एस. रत्तेसर	स्थानापन्न सहायक डाक अधीक्षक, नवी मुम्बई	डाक प्रबंध
9.	श्री वी. जे. सावंत	निरीक्षक डाक, (स्थानापन्न) सहायक डाक अधीक्षक ए.पी.टी.एम.ओ.	डाक प्रबंध
10.	श्रीमती गीता सी. सालियन	स्थानापन्न सहायक डाक अधीक्षक (दूर) पश्चिम मंडल	मुंबई
11.	श्रीमती आर. एस. दलवी	स्थानापन्न सहायक डाक अधीक्षक (बी.डी.), नवी मुम्बई मंडल	मुंबई
12.	श्री वी. एस. कुलकर्णी	सहायक अधीक्षक डाक कराड (पश्चिम)	पुणे
13.	श्री एम. रविशंकर	स्थानापन्न सहायक डाक अधीक्षक-II, उत्तर मंडल	मुंबई
14.	श्री आर. ए. अवताडे	स्थानापन्न सहायक डाक अधीक्षक एस.पी.सी.सी.	डाक प्रबंध
15.	श्रीमती पी. वी. कामत	स्थानापन्न सहायक डाक अधीक्षक (बैंग), सी.बी.ओ. परेल	मुंबई
16.	श्री एस. आर. पाठक	स्थानापन्न सहायक डाक अधीक्षक (नॉर्थ), औरंगाबाद	औरंगाबाद
17.	श्री जी. जे. मोंडे	स्थानापन्न सहायक डाक अधीक्षक (मुख्यालय), रत्नागिरी मंडल	गोवा
18.	श्री एम. एम. सालवे	डाक निरीक्षक (स्थानापन्न सहायक डाक अधीक्षक एस.पी.सी.सी.)	डाक प्रबंध
19.	श्री एस. डब्ल्यू. वालवेकर	डाक निरीक्षक उरण इस्लामपुर, सांगली मुख्य डाकघर	गोवा
20.	श्री ए. आर. महाडिक	डाक निरीक्षक (स्थानापन्न सहायक डाक अधीक्षक ए.पी.एस.ओ. इनलैन्ड	डाक प्रबंध
21.	श्रीमती एन. एन. दोशी	निरीक्षक (यूनिफार्म), मुम्बई डाक वस्तु भंडार	मुंबई
22.	श्री वी. एस. कुंभार	निरीक्षक (व्यवसाय विकास), मुंबई क्षेत्र	मुंबई

1	2	3	4
23.	श्रीमती एन. एस. गांधी	शिकायत निरीक्षक, ठाणे सेंट्रल मंडल	मुंबई
24.	श्री एस. एस. सावंत	उप मंडल निरीक्षक (डाक), मुंबई शहर उत्तर पश्चिम मंडल	मुंबई
25.	श्री के. बी. जाधव	उप मंडल निरीक्षक, शिरपुर, औरंगाबाद	औरंगाबाद
26.	श्री जी. पी. पलसुले	डाक निरीक्षक तकनीकी, मुंबई क्षेत्र	मुंबई
27.	श्री डी. एल. खाडे	प्लेटफार्म निरीक्षक, नागपुर रेल डाक सेवा	नागपुर
28.	श्री सी. डी. काजरोलकर	निरीक्षक, सी.पी.एस.ओ., मुंबई छंटई मंडल,	डाक प्रबंध
29.	श्री एम. एम. निकम	उप मंडल निरीक्षक (डाक), दक्षिण उप विभाग, यवतमाल	नागपुर
30.	श्री पी. एम. डांग	निरीक्षक (छंटई) सर्किल कार्यालय, मुंबई	सर्किल कार्यालय
31.	श्री आर. एस. बोटलावार	उप मंडल निरीक्षक (डाक), हिंगोली उप मंडल	औरंगाबाद
32.	श्रीमती एम. आर. तावडे	डाक निरीक्षक, पोस्टमास्टर जनरल विदेश डाक का कार्यालय, सर्किल कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर	डाक प्रबंध
33.	श्री एस. ए. के. पिल्लई	उप मंडल निरीक्षक (डाक) मुंबई शहर दक्षिण मंडल	मुंबई
34.	श्री वी. पी. भोगे	उप मंडल निरीक्षक (डाक) चांदा पूर्व उप मंडल, चंद्रपूर	नागपुर
35.	श्री एम. एम. मेदार	निरीक्षक (डाक), सर्किल कार्यालय, मुंबई	डाक प्रबंध
36.	श्री जी. बी. आंधोरे	उप मंडल निरीक्षक (डाक), वाशिम उप मंडल, अकोला	नागपुर
37.	श्री एस. डी. खरात	उप मंडल निरीक्षक (डाक), मुंबई शहर पश्चिम मंडल	सर्किल कार्यालय
38.	श्री एच. एस. आगवणे	उप मंडल निरीक्षक (डाक) सासवड, पुणे ग्रामीण मंडल	पुणे
39.	श्री आर. वी. पालेकर	उप मंडल निरीक्षक, परभणी उप मंडल	औरंगाबाद
40.	श्री एम. एस. नवाल्लू	उप मंडल निरीक्षक (डाक), भोकर, नांदेड़	औरंगाबाद

उपर्युक्त क्रम संख्या 35 से 38 पर दिये गये कर्मचारियों का चयन अनुसूचित-जाति श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों में है तथा क्रम संख्या 39 और 40 पर दिये गये कर्मचारियों का चयन अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों में है।

आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यार्थियों के संबंध में उनकी पदोन्नति उनकी जाति-स्थिति के सत्यापन के अधीन अनंतिम है। कर्मचारियों के कार्यमुक्त होने के समय कार्यालय-प्रमुख उनसे वचन-पत्र लेंगे और एक महीने के अंदर जाति-स्थिति का सत्यापन सुनिश्चित करेंगे।

सत्यापन के बाद दिनांक 27.02.1981 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36011/16/80-स्थापना (एससीटी), दिनांक 14.10.1987 के का. ज्ञा. सं. 42012/8/87-स्थापना (एससीटी) तथा दिनांक 16.06.1989 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/36(22)/89-स्थापना (एससीटी) में निहित अनुदेशों के अनुसार संबंधित अधिकारियों की सेवा-पंजियों में आवश्यक प्रविष्टियाँ अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए।

पोस्टमास्टर जनरल, जिनके क्षेत्रों को इन कर्मचारियों को आबंटित किया गया है, वे इसे सुनिश्चित करेंगे।

क्षेत्रीय पोस्टमास्टर जनरल, मुंबई/पुणे/नागपुर/औरंगाबाद और गोवा क्षेत्र आबंटित कर्मचारियों के बारे में आगे तैनाती आदेश जारी करेंगे।

क्षेत्रीय पोस्टमास्टर जनरलों/मंडल-प्रमुखों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों के विरुद्ध कोई अनुशासनिक/सतर्कता मामला लंबित/अवेक्षित न हो और कर्मचारी को वेतन-वृद्धि रोके जाने, वेतन-ग्रेड इत्यादि में कमी करने जैसा दण्ड न मिला हो। ऐसे मामलों की सूचना तुरंत सर्किल कार्यालय, मुंबई को दी जानी चाहिए और कर्मचारी को पदोन्नत पद के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

पदोन्नति प्राप्त कर्मचारी को इस विषय पर जारी आदेशों के अनुसार एक महीने के अंदर वेतन-नियतन के लिए अपना विकल्प देना होगा। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम माना जाएगा।

संबंधित पोस्टमास्टर जनरल/मंडल-प्रमुख 15 दिनों के अंदर कर्मचारियों को कार्यमुक्त करेंगे। ऐसा न करने पर यह मान लिया जाएगा कि कर्मचारियों को पदोन्नति में रुचि नहीं है और उनके नाम निकाल दिए जाएंगे और उनकी पदोन्नति के मामले में एक वर्ष तक विचार नहीं किया जाएगा।

ऐसे मामलों में क्षेत्रीय पोस्टमास्टर जनरल/मंडल-प्रमुख कर्मचारियों की पदोन्नति से संबंधित अस्वीकृति-पत्र इस ज्ञापन के जारी होने की तारीख से एक महीने के अंदर आगे की कार्रवाई के लिए अवश्य भिजवाएंगे।

आबंटन/तैनाती में बदलाव के लिए कर्मचारियों द्वारा किया गया कोई भी अनुरोध तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक वे पदोन्नति पर अपना पद ग्रहण नहीं कर लेते। कर्मचारियों को कार्यालय व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यमुक्त किया जाना चाहिए और उन्हें उनकी नई तैनाती को तुरंत ग्रहण किए जाने का निदेश दिया जाना चाहिए।

सभी कर्मचारियों को अपने कार्यमुक्त होने के समय निर्धारित प्रपत्र में अपना स्व-मूल्यांकन मंडल-प्रमुख अथवा नियंत्रण प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए। इसी प्रकार रिपोर्टिंग अधिकारी निर्धारित अवधि के अंदर कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें भी लिखेंगे और पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों का पुनरीक्षण किए जाने के बाद ही वे उनकी गोपनीय रिपोर्टें नये कार्यालय को भेजेंगे। वे इस बारे में अपनी रिपोर्ट भी भेजेंगे। आवश्यक कार्य ग्रहण रिपोर्ट सभी संबंधितों को यथा समय भेजी जानी चाहिए।

(इसका अंग्रेजी पाठ दि. 06-05-2011 को जारी किया गया।)

पी. डी. कासार  
सहायक पोस्टमास्टर जनरल (स्टाफ)

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)	3. डी. एस. तंवर
नई दिल्ली, दिनांक 12 अगस्त 2011	4. राजेन्द्र कुमार
सं. ई(जी.पी.)2008/3/4--राष्ट्रपति, भारतीय रेलों के यांत्रिक इंजीनियरी विभाग के निम्नलिखित 65 ग्रुप 'बी' अधिकारियों की उल्लिखित रेलों पर 24.06.2011 से भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरी सेवा (आई.आर.एस. एम.ई.) के ग्रुप 'ए' कनिष्ठ वेतनमान में सहर्ष नियुक्त करते हैं :--	डी.एल.डब्ल्यू.
2009-10 के लिए पैनल	1. टी. पी. सिंह
क्र. अधिकारियों के नाम	2. अनुपम चौधरी
सं.	3. जितेन्द्र अग्रवाल
सर्वश्री	पूर्वतट रेलवे
सी.एल.डब्ल्यू.	1. ए. के. महाराना
1. जे. सी. साहा	2. जे. के. साहू
2. बी. सी. घोष	3. चक्रधर साहू
मध्य रेलवे	पूर्व रेलवे
1. एस. ए. अंसारी	1. दिलीप साहा
2. डी. एन. शेनॉय	2. स्वपन कुमार दास-II
3. अवधेश कुमार	3. ए. रॉय चौधरी
4. एस. एन. कदम	4. जी. एन. सिंह
5. टी. एन. मोहोद (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	आई.सी.एफ.
6. एच. डी. सावादे (अ.ज.जा.) (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	1. एस. मुत्थु कुमार
डी.एम.डब्ल्यू.	2. डी. नीलाकन्दन
1. जी. एस. खगता	3. एन. रंजीतराज (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
2. एम. आई. आलम	उत्तर मध्य रेलवे
	आर. पी. त्रिपाठी
	पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे
	1. एम. एल. देब
	2. बी. नाथ

## उत्तर रेलवे

1. रमन कुमार सिंघल
2. अनिल कुमार गुप्ता
3. अरविंद कुमार दत्ता
4. आर. पी. राम (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
5. राजेश कुमार (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
6. रतन लाल (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

## आर.सी.एफ.

1. जे. एस. पन्नु
2. सुनिल कपूर
3. कमल कुमार (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

## आर.डब्ल्यू.एफ.

1. पी. एम. जयारामेगौडा
2. के. करुपैया

## दक्षिण मध्य रेलवे

1. ई. प्रसाद
2. हरी वेदामूर्ति
3. जी. अप्पा राव
4. के. सुब्बारायडु (अ.ज.जा.) (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

5. के. वेंकटरमन्ना
6. एन. रामाकृष्णराजू

## दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

1. एम. आर. यादव
2. आर. वी. रंगा राव

## दक्षिण पूर्व रेलवे

1. एस. पी. सिंहरॉय
2. एस. सी. बेहरा
3. बी. के. बेहरा
4. आर. आर. नाईक
5. के. रॉय चौधरी
6. एस. पॉले

7. एस. के. भट्टाचार्या

8. एन. गुहा

9. एस. के. हाजरा

10. एस. के. मंडल (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

## दक्षिण रेलवे

1. एस. वेंकटेश्वरन
2. एम. चिदम्बरावेलन
3. बी. आनन्द (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

## दक्षिण पश्चिम रेलवे

1. एम. बालाकृष्णन
2. एच. विजयाकुमार (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

## पश्चिम मध्य रेलवे

1. एस. के. सिंह
2. एन. के. मिश्रा
3. ओ. पी. श्रीवास्तव

विजय कुमार गुप्ता, सचिव  
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 18 अगस्त 2011

सं. ईआरबी-I/2007/10/4--रेल राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी) के कार्यालय में विशेष अधिकारी के रूप में कार्यरत श्री विजय कुमार, निजी सचिव, सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय 31.07.2011 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

विजय कुमार गुप्ता, सचिव  
(रेलवे बोर्ड)

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 अगस्त 2011

सं. ए-12025/1/2011-ई-II(भाग-II)--राष्ट्रपति, श्री सुनील कुमार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली में दिनांक 02.05.2011 (पूर्वाह्न) से तथा आगामी आदेशों तक वेतनमान रु. 15,600-- 39,100/- + 5,400/- ग्रेड पे में केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़क) समूह 'क' के सहायक कार्यपालक अभियंता (सिविल) के पद पर नियुक्त करते हैं।

देव राज शर्मा, अवर सचिव

## विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 2011

सं. 28/2011 (फा.सं. 2/1/2010-प्रशा.-II)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.08.2011 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/7/2011 सीएस-I (यू), में निहित प्रावधानों के अनुसरण में सीएसएस के विद्युत मंत्रालय संवर्ग के नियमित अनुभाग अधिकारी श्री एम. एम. सक्सेना को अगले आदेशों के होने तक 12 अगस्त, 2011 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के ग्रेड में नियुक्त किया जाता है।

मधुकर सूद, अवर सचिव

सं. 27/2011 (फा.सं. 2/11/2010-प्रशा.-II)--राष्ट्रपति, वर्ष 2011 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) चयन सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, श्री वी. के. भाटिया, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) अधिकारी, को अगले आदेश के होने तक 18 अगस्त, 2011 के पूर्वाह्न से विद्युत मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

मधुकर सूद, अवर सचिव

## जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 अगस्त 2011

सं. 08/2011 (फा.सं. 2/2/2011-प्रशा.)--राष्ट्रपति, श्री राहुल भंडारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पीबी:97) को दिनांक 13 जुलाई, 2011 (पूर्वाह्न) से उनकी प्रतिनियुक्ति की 5 वर्ष की अवधि के शेष समय अर्थात् 28.06.2014 या मंत्री जी के कार्यकाल के आधार पर या जब वे मंत्री जी के निजी सचिव के रूप में कार्य करना बंद कर दें या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक माननीय जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) के निजी सचिव के रूप में 'पार्श्विक स्थानांतरण' (ऑनलेटरल शिफ्ट) आधार पर निदेशक के समकक्ष पद पर नियुक्त करते हैं।

डी. के. पालीवाल, अवर सचिव

## शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 अगस्त 2011

सं. ए-11019/1/2006-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 18 जुलाई, 2011 के का. ज्ञा. सं. 1/1/2011-सीएस-II

(ए) के तहत चयन सूची वर्ष 2011 के लिए प्रधान स्टाफ अधिकारी के पैनल में उनका नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, श्री आई. एस. नूनवाल, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव को पे बैंड-4 (रु. 37,400--67,000/- + रु. 8,700/- ग्रेड वेतन) में इस मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा संवर्ग में प्रधान स्टाफ अधिकारी (पीएसओ) के पद पर दिनांक 18.07.2011 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

जितेन्द्र कुमार, अवर सचिव

सं. ए-32022/1/2011-प्रशा.-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 20.11.2009 के उनके कार्यालय ज्ञापन सं. 4/4/2009-सीएस-I(डी) के तहत वर्ष 2006 के लिए सीएसएस की चयन ग्रेड (उप सचिव) चयन सूची में नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, भूमि तथा विकास कार्यालय, जो शहरी विकास मंत्रालय का सम्बद्ध कार्यालय है, से सेवानिवृत्त सीएसएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) श्री ए. भट्टाचार्य को दिनांक 01.07.2006 से उप सचिव के रूप में नोशनल आधार पर पदोन्नत करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति श्री ए. भट्टाचार्य बनाम संघ सरकार एवं अन्य द्वारा दायर ओ.ए. सं. 993/2011 पर माननीय मुख्य पीठ, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 11.03.2011 को पारित आदेश के कार्यान्वयन में की गई है।

जितेन्द्र कुमार, अवर सचिव

दिनांक 16 अगस्त 2011

सं. ए-22012/1/94-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, डॉ. सुधीर कृष्णा, आई.ए. एस. (कर्नाटक:77) को शहरी विकास मंत्रालय में दिनांक 10.08.2011 (पूर्वाह्न) से सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

जितेन्द्र कुमार, अवर सचिव

दिनांक 17 अगस्त 2011

सं. ए-22012/1/94-प्रशा.-I(भाग)--राष्ट्रपति, श्री अरुण कुमार मिश्रा, आई. ए. एस. (यूपी:76) को आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में दिनांक 10.08.2011 (पूर्वाह्न) से सचिव नियुक्त करते हैं।

जितेन्द्र कुमार, अवर सचिव

## PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110101, the 25th July 2011

No. A-22012/01/2011-PME—Consequent upon completion of tenure on Central Deputation, Shri Ashish Gupta, IPS (UP:1989) has relinquished the charge of the post of Director in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 23rd July, 2011.

P. K. BALI, Under Secy.

## RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 11th August 2011

No. RS/6/4/2011/69-Perl.—Shri Zillur Rahman Haider has been appointed as Senior Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat in the personal staff of Chairman, Committee on Papers Laid on the Table (Shri Tariq Anwar) in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from the forenoon of 3rd August, 2011 and until further orders.

2. The appointment of Shri Zillur Rahman Haider is at the discretion of the present Chairman, Committee on Papers Laid on the Table and will be co-terminus with the term of his office.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

The 19th August 2011

No. RS/6/4/2011/72-Perl.—Shri Narender Singh has been appointed as Senior Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat in the personal staff of Chairman, Committee on Personnel, Public Grievances, Law & Justice (Dr. Abhishek Manu Singhvi) in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from the forenoon of 5th August, 2011 and until further orders.

2. The appointment of Shri Narender Singh is at the discretion of the present Chairman, Committee on Personnel, Public Grievances, Law & Justice and will be co-terminus with the term of his office.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

## MINISTRY OF LAW &amp; JUSTICE

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 20th July 2011

No. A.12034/1/2009-Admn.IV(LA) Vol. III—Consequent on demission of office by Dr. M. Veerappa Moily as Minister for Law & Justice with effect from 13.07.2011 and as per instructions contained in the Department of Personnel & Administrative Reforms O.M. No. 10/20/97-CS.II dated 02.08.79, winding up period of 30 days from 13.07.2011 to 11.08.2011 is granted to Shri M. Ramakrishna Reddy, Addl. Private

Secretary to the former Minister for Law & Justice (Dr. M. Veerappa Moily).

ASHA SOTA, Under Secy.

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 30th August 2011

No. I-14011/3/2010-IPS.I(I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulation, 1955, the Union Public Service Commission has on 23.08.2011, approved the year-wise Select Lists of the years 2007-A and 2008, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 27.12.2010, containing the names of the following State Police Service Officers of Bihar, towards filling up 5 and 8 substantive vacancies during the year 2011 in the IPS of Bihar Cadre :—

## SELECT LIST 2007-A

S.No.	Name	Date of Birth
	Smt./Shri	
1.	Dayanand Kumar	01.04.1953
2.	Asghar Imam	23.03.1957
3.	Sudhir Kumar	23.12.1956
4.	Prakash Kumar Sinha	06.04.1953
5.	Ajit Kumar Rai	25.11.1957

## SELECT LIST 2008

S.No.	Name	Date of Birth
	Smt./Shri	
1.	Md. Mansoor Ahmad	01.12.1956
2.	Md. Rahman	20.01.1960
3.	Mithu Prasad	01.02.1955
4.	Sukan Paswan	18.01.1957
5.	Barun Kumar Sinha	06.01.1957
6.	Chandrika Prasad	21.07.1957
7.	Binod Kumar No. 2	02.10.1961
8.	Saurabh Kumar	05.01.1959

BALDEV RAJ, Under Secy.

No. I-14011/3/2010-IPS.I(II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rule, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulation, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Bihar Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them

to the Bihar Cadre under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :—

#### SELECT LIST 2007-A

S.No.	Name	Date of Birth
	Smt./Shri	
1.	Dayanand Kumar	01.04.1953
2.	Asghar Imam	23.03.1957
3.	Sudhir Kumar	23.12.1956
4.	Prakash Kumar Sinha	06.04.1953
5.	Ajit Kumar Rai	25.11.1957

#### SELECT LIST 2008

S.No.	Name	Date of Birth
	Smt./Shri	
1.	Md. Mansoor Ahmad	01.12.1956
2.	Md. Rahman	20.01.1960
3.	Mithu Prasad	01.02.1955
4.	Sukan Paswan	18.01.1957
5.	Barun Kumar Sinha	06.01.1957
6.	Chandrika Prasad	21.07.1957
7.	Binod Kumar No. 2	02.10.1961
8.	Saurabh Kumar	05.01.1959

2. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

BALDEV RAJ, Under Secy.

#### MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

#### (DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 29th July 2011

No. 13017/46/2005-AIS(I)—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Government of Nagaland, the Central Govt. hereby accords approval for extension of inter cadre deputation of Shri Mhathung Kithan, IAS (HY:86) from Haryana to Nagaland cadre for a period of two years and eight months beyond 16.05.2011, i.e. until the date of his superannuation in January, 2014.

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

New Delhi, the 19th August 2011

No. 14012/09/2010-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Andhra Pradesh, in the Indian

Administrative Service, with effect from the date(s) shown against them :—

Sl. No.	Name	Batch	Due date of confirmation
1.	Dr. Gaurav Uppal	2005	22.08.2007
2.	Shri Ilambarithi K	2005	22.08.2007
3.	Dr. N. Yuvaraj	2005	22.08.2007
4.	Smt. M. Janaki	2005	22.08.2007
5.	Shri K. Manicka Raj	2005	22.08.2007
6.	Shri Mudavatu M. Nayak	2005	22.08.2007

NAVNEET MISRA, Under Secy.

No. 14012/11/2010-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, the following members of the Indian Administrative Service borne on the Uttar Pradesh Cadre, in the Indian Administrative Service, with effect from the date(s) shown against them :—

Sl. No.	Name	Batch	Date of confirmation
1.	Ms. Kanchan Verma	2005	22.08.2007
2.	Shri Surendra Singh	2005	22.08.2007
3.	Shri Lokesh M.	2005	22.08.2007
4.	Shri Govindaraju N. S.	2005	22.08.2007
5.	Shri Gurralla Sreenivasulu	2005	22.08.2007

NAVNEET MISRA, Under Secy.

No. 14012/04/2011-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Andhra Pradesh, in the Indian Administrative Service, with effect from the date(s) shown against them :—

Sl. No.	Name	Batch	Due date of confirmation
	S/Sh.		
1.	D. Ronald Rose	2006	29.08.2008
2.	Gorrela Suvarna Panda Das	2006	29.08.2008
3.	Pravin Kumar	2006	29.08.2008
4.	Sujata Sharma (Ms.)	2006	29.08.2008

NAVNEET MISRA, Under Secy.



New Delhi, the 24th August 2011

No. A.32013/1/2011-Ad-I—Consequent upon his selection for appointment as Director, the President is pleased to appoint Shri Ravi Kota, IAS (AM:93) as Director in the Department of Personnel & Training for the balance period of his Central Deputation i.e. with effect from afternoon of 19th August, 2011 and upto 19.03.2013, or until further orders, whichever is earlier.

PRIYA MAHADEVAN, Under Secy.

New Delhi, the 25th August 2011

No. 14015/24/2010-AIS(I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulation, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service officers of West Bengal containing the following names prepared on 1st July, 2011 under Regulation 5(5) and approved on 8th August, 2011, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in IAS Cadre of West Bengal under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List 2009A (Against the vacancies of 2009) :—

SELECT LIST 2009-A (Against Vacancies of 2009)

S.No.	Name	Date of Birth
1.	Smt. Madhumita Ray	15.08.1957
2.	Smt. Nita Nandy	22.04.1955
3.	Shri Durgadas Goswami	29.04.1957
4.	Shri Souvik Sukumar Majumder	31.03.1956
5.	Shri Amalesh Pathak	31.12.1957
6.	Shri Pasang Norbu Bhutia (ST)	02.02.1958
7.	Shri Dinabandhu Bhattacharyya	23.09.1957

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/24/2010-AIS(I)-B—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulation, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of West Bengal to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List 2009A (vacancies of 2009), on probation until further orders and to allocate

them to the West Bengal Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

SELECT LIST 2009-A (Against Vacancies of 2009)

S.No.	Name
1.	Smt. Madhumita Ray
2.	Smt. Nita Nandy
3.	Shri Durgadas Goswami
4.	Shri Souvik Sukumar Majumder
5.	Shri Amalesh Pathak
6.	Shri Pasang Norbu Bhutia (ST)
7.	Shri Dinabandhu Bhattacharyya

S. S. SHUKLA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY  
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 11th August 2011

No. A-32012/1/2011-E-II—In pursuance of DOPT's O.M. No. 3/1/2011-CS.II(A) dated 30th May, 2011 & 4th August, 2011, the President is pleased to appoint Shri K. Sunder, a permanent PS of the CSSS cadre of Department of Commerce as Principal Private Secretary (PPS) on ad hoc basis in the scale of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- in the Department of Commerce with effect from the date he assume charge of the post of PPS for a period upto 30.09.2011 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The appointment of Shri K. Sunder is purely on ad hoc basis and shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the grade of PPS.

S. K. SHARMA, Under Secy.

DIRECTORATE OF GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 25th August 2011

No. 7/2011 F.No. 6/2530/2010/PEN/HRD-I/3344—Shri Ram

Kumar Dagar, FTDO, (Section Officer, CSS) of this Directorate expired on 23.07.2011.

R. S. BISHT, Dy. Dir. Gen. of Foreign Trade

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER  
COCHIN SPECIAL ECONOMIC ZONE (CSEZ)

Cochin-682037, the 25th June 2010

NOTICE OF TERMINATION OF SERVICE ISSUED  
UNDER RULE 5(1) OF THE CENTRAL CIVIL SERVICES  
(TEMPORARY) RULES, 1965

No. 01/20/2009-Admn-CSEZ—In pursuance of Sub Rule (1) of Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965, I, Shri Chandran Chiramel, Deputy Development Commissioner hereby give notice to

Shri Dhanej Antony, Security Guard Trainee that his services shall stand terminated with effect from the date of expiry of a period of one month from the date on which this notice is served on or, as the case may be, tendered to him.

Sd/- ILLEGIBLE

Signature of Appointing Authority

To

Shri Dhanej Antony,  
Security Guard Trainee,  
CSEZ, Cochin  
(Payanadeth House,  
Ponnarimangalam,  
Mulavukad P O, Pin-682504)

---

#### MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 23rd August 2011

No. 06/2011 (A-12022/8/2010-Estt.)—The President is pleased to appoint Shri Ishwar Sharan, Section Officer of the cadre of Ministry of Rural Development to the Grade-I (Under Secretary) of CSS on ad hoc basis w.e.f. 19th August, 2011 (FN) in pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 5/7/2011-CS.I(U) dated 11th August, 2011.

INDERJIT SINGH, Dir.

The 24th August 2011

No. 7/2011 (A-12022/7/2011-Estt.)—The President is pleased to appoint Shri Parveen Jargar, Section Officer of the cadre of Ministry of Human Resource Development to the Grade-I (Under Secretary) of CSS on ad hoc basis w.e.f. 24th August, 2011 (FN) in pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 5/7/2011-CS.I(U) dated 11th August, 2011.

INDERJIT SINGH, Dir.

---

#### MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 4th August 2011

No. A-12011/11/2006-Estt.—In terms of Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/8/2006-CS.II dated 1st July, 2011, the President is pleased to extend the ad hoc appointment of Shri J. K. Tandon, a regular Steno Grade 'C' of Ministry of Petroleum & Natural Gas as Private Secretary 'A&B' (merged) of CSSS Cadre of Ministry of Petroleum & Natural Gas for a further period upto 31.08.2011 or till regular Stenos Grade 'A&B' (merged) of CSSS become available, whichever is earlier.

2. The continuation of ad hoc appointment of the above mentioned officer is purely on ad hoc basis and shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the grade 'A&B' (merged) (PS) of CSSS.

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

The 18th August 2011

No. A.32011/1/2004-Estt.—In terms of Department of Personnel and Training Order No. 5/7/2011-CS.I(U) dated 11.08.2011, the President is pleased to appoint the following Section Officers of Central Secretariat Service (CSS), as Grade-I (Under Secretary) of CSS, on ad hoc basis, in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/-, w.e.f. 11.08.2011 (FN) and till 31.05.2012 or until further orders, whichever is earlier :—

1. Smt. Veena Dewan (CSL No. 6947)

2. Shri Akhilesh Kumar (CSL No. 7021)

2. The above appointment is purely on ad hoc basis and shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in Grade-I of CSS.

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

---

#### MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 25th August 2011

No. A-15012/1/2005-Admn./Estt.(Pt.)—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 5/3/2010/CS-I(U) dated 11.08.2011, Shri A. K. Das (CSL No. 6901), Section Officer in the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, is appointed to the Grade-I (Under Secretary) of CSS in the Ministry of Coal purely on ad hoc basis w.e.f. 24.08.2011 (F/N) upto 31.05.2012 or till the post is filled up on regular basis, or until further orders, whichever is earlier, subject to conditions mentioned in the DOP&T's OM dated 11.08.2011 referred above.

ANAND PRAKASH, Under Secy.

---

#### MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 2nd August 2011

No. 3/2/2006-Estt.—In pursuance of Ministry of Home, Department of Official Language's Office Order No. 5/18/2010-OL dated 31.05.2011, the President is pleased to appoint Shri Birendra Singh Rawat as Assistant Director (O.L.) in Ministry of Mines with effect from the forenoon of 11.07.2011.

NEETA GUPTA, Under Secy.

---

#### MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC ENTERPRISES

(DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES)

New Delhi-110003, the 24th August 2011

No. A-19012/159/2010-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Dipankar Nandi as Principal Staff Officer in the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from the forenoon of 18.07.2011.

G. S. BASRAN, Dir.

## MINISTRY OF HEALTH &amp; FAMILY WELFARE

New Delhi-110108, the 25th August 2011

No. A. 12025/26/08-CHS-III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Diganta Saikia to the post of Assistant Professor in the speciality of Paediatrics in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 08.01.2010 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

No. A. 12025/47/2009-CHS-III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Abhilasha Yadav to the post of Assistant Professor in the speciality of Psychiatry in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 09.04.2010 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA &  
NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND  
HOMOEOPATHY

New Delhi, the 1st July 2011

No. A-38012/2/09-E-I (AYUSH)—On attaining the age of superannuation, Dr. M. A. Kumar, Deputy Adviser (Siddha), Department of AYUSH, Ministry of Health & Family Welfare stands retired from the Government Service with effect from 30.06.2011 (A.N.).

CHANDRA SHEKHAR, Under Secy.

## MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE &amp; COOPERATION)

New Delhi, the 19th August 2011

No. L-12011/3/2009-I&P—Shri Govindan Nair, IAS (UP:78), Managing Director, National Cooperative Development Corporation, New Delhi, Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture in the rank and pay of Additional Secretary will retire from Government service with effect from the afternoon of 31st August, 2011 on attaining the age of superannuation.

SEBASTIAN JOSEPH, Dy. Dir. (Cooperation)

New Delhi, the 25th August 2011

No. 4-5/2005-Extn.—The President is pleased to continue the appointment of Shri C. K. Haridas, Joint Director (FI), G.C.S. Group 'A' Gazetted in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- in the Directorate of Extension, Deptt. of Agriculture & Cooperation, on ad hoc basis for a further period of six months i.e. from 1st July, 2011 to 31st December, 2011 or till the post is filled up on regular basis or until further orders whichever is earlier.

2. The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade of Joint Director (FI).

R. S. VERMA, Under Secy.

## MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi-110114, the 24th February 2011

No. A-12022/4/2006-Estt.I—The President is pleased to appoint the following Under Secretaries (Grade-I of CSS) as Deputy Secretary (Selection Grade of CSS) on regular basis in the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development with effect from the dates mentioned against each :—

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Shri S. V. N. Pillai | 04.02.2011 (FN) |
| 2. Shri B. C. Behera    | 09.02.2011 (FN) |

GEORGE Y., Under Secy.

The 25th February 2011

No. A-12022/02/2011-Estt.I—The President is pleased to appoint Shri Anandrao Vishnu Patil, IAS (TN:1998) as Private Secretary (Deputy Secretary level) to the Minister of Rural Development (Shri Vilasrao Deshmukh) in the Ministry of Rural Development 'on lateral shift' basis with effect from 20.01.2011 (FN) for the balance period of his deputation tenure of 5 years as Private Secretary i.e. upto 17.03.2015 or on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever is earliest.

GEORGE Y., Under Secy.

The 4th April 2011

No. A-38012/03/2010-Estt.I—On attaining the age of superannuation, Shri Nanak Chand, Deputy Secretary of this Ministry has retired from Government Service with effect from 31.03.2011 (AN).

GEORGE Y., Under Secy.

No. A-38013/07/2010-Estt.I—On attaining the age of superannuation, Shri N. Sudhakaran, Accounts Officer of this Ministry has retired from Government Service with effect from 31.03.2011 (AN).

GEORGE Y., Under Secy.

The 20th May 2011

No. A-11013/03/2011-Estt.I—Pursuant to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs Notification No. 11015/1/2009-IES dated 18.2.2011 creating one post of Senior Administrative Grade (Economic Adviser or equivalent) in the Pay Band-4 (Rs. 37,400—67,000/-) + Grade Pay Rs. 10,000/- in the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development, the President is pleased to appoint Shri Shakti

Singh Negi, Indian Economic Service, SAG level Officer holding NFSG level post being operated at the SAG level (on a personal basis) presently working as Economic Adviser in the Department of Rural Development on regular basis w.e.f. the forenoon of 16.3.2011 until further orders.

GEORGE Y., Under Secy.

The 1st July 2011

No. A-19013/5/2009-Estt.I—The President is pleased to appoint Shri Lalrinliana Fanai, IAS (UL:97) as Director as a measure personal to him in the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development with effect from the forenoon of 1st July, 2011, for a balance period of his tenure which would now be upto 3.8.2015 or until further orders.

GEORGE Y., Under Secy.

No. A-19013/5/2009-Estt.I—The President is pleased to appoint Shri Rohit Kumar, IAS (RJ:97) as Director as a measure personal to him in the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development with effect from the forenoon of 1st July, 2011, for a balance period of his tenure which would now be upto 10.11.2014 or until further orders.

GEORGE Y., Under Secy.

No. A-12023/1/2011-Estt.I—The President is pleased to appoint Shri Deepak R. Taware, an officer of the State Government of Maharashtra as Officer-on-Special Duty (OSD) to the Minister for Rural Development (Shri Vilasrao Deshmukh) at Under Secretary Level for a period of 3 years w.e.f. 28.3.2011 and upto 27.3.2014 on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as OSD to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

GEORGE Y., Under Secy.

No. A-38013/01/2011-Estt.I—On attaining the age of superannuation, Shri R. P. Singh, Section Officer of this Ministry has retired from Government Service with effect from 30.06.2011 (AN).

GEORGE Y., Under Secy.

The 18th July 2011

No. A-12022/4/2010-Estt.I—The President is pleased to appoint Shri S. P. Vashishth, IAS (AM:94) as Director in the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development on deputation basis for a period of five years with effect from the forenoon of 6th July, 2011 or until further orders, whichever event takes place earlier.

GEORGE Y., Under Secy.

The 1st August 2011

No. A-38013/03/2011-Estt.I—On attaining the age of superannuation, Shri M. L. Srivastava, Statistical Officer of this Ministry has retired from Government Service with effect from 31.07.2011 (AN).

GEORGE Y., Under Secy.

No. A-38013/02/2011-Estt.I—On attaining the age of superannuation, Shri H. D. Garg, Section Officer of this Ministry has retired from Government Service with effect from 31.07.2011 (AN).

GEORGE Y., Under Secy.

The 9th August 2011

No. A-12022/5/2011-Estt.I—The President is pleased to appoint Shri Vineel Krishna, IAS (OR:2005) as Private Secretary (Under Secretary level) to the Minister of Rural Development (Shri Jairam Ramesh) on lateral shift basis with effect from 13.7.2011 and upto the balance period of his deputation tenure of 5 years as Private Secretary i.e. upto 30.6.2016 or on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders whichever is the earliest.

GEORGE Y., Under Secy.

The 11th August 2011

No. A-12022/6/2011-Estt.I—The President is pleased to appoint Shri R. Ramesh as Additional Private Secretary to the Hon'ble Minister of Rural Development (Shri Jairam Ramesh) in the PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- w.e.f. 13.7.2011 (FN) on co-terminus basis or till he ceases to function as Additional Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever is earliest.

GEORGE Y., Under Secy.

New Delhi-110114, the 29th April 2011

No. A-12022/04/2006-Estt.I—The President is pleased to appoint Smt. Renuka Kumar (Grade-I of CSS) as Deputy Secretary (Selection Grade of CSS) on regular basis in the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development with effect from the forenoon of 5th April, 2011.

S. S. PRASAD, Under Secy.

The 4th May 2011

No. A-12023/1/2011-Estt.I—The President is pleased to appoint Shri Deepak R. Taware, Deputy Registrar, Department of Co-operation and Textile, Govt. of Maharashtra as Additional Private Secretary to Minister of Rural Development (Shri Vilasrao Deshmukh) in the PB-3,

(Rs. 15,600—39,100/-) + Rs. 6,600/- (Grade Pay) for the period from 20.1.2011 to 27.3.2011 on co-terminus basis.

S. S. PRASAD, Under Secy.

The 6th May 2011

No. A-12022/03/2011-Estt.I—The President is pleased to appoint Shri D. K. Jain, IAS (MH:83) as Joint Secretary in the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development with effect from the forenoon of 26th April, 2011 for a balance period of his central deputation tenure of 5 years i.e. upto 23.3.2013 or until further orders, whichever event takes place earlier.

S. S. PRASAD, Under Secy.

The 9th May 2011

No. A-22012/01/2011-Estt.I—The President is pleased to appoint Dr. Kamala Kanta Tripathy, (IES:99) as Joint Director in the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development with effect from the forenoon of 2nd May, 2011 until further orders.

S. S. PRASAD, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF LAND RESOURCES

New Delhi, the 26th August 2011

No. A. 12023/1/2010-Admn.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. C. P. Reddy, Assistant Commissioner in the Department of Land Resources as Deputy Commissioner (Watershed Development) in the pay band/scale of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- on promotion basis in this Department with effect from the forenoon of 8th August, 2011.

ANOOP KUMAR, Under Secy.

#### MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

New Delhi, the 29th August 2011

No. A-19011/10/2006-Estt.—The President is pleased to appoint Dr. Avtar Singh Sahota SAG level Officer as Economic Adviser in the Ministry of Panchayati Raj against the vacant post with effect from the forenoon of 28th August, 2011 and until further orders.

L. HAOKIP, Under Secy.

#### MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 7th July 2010

No. 3-1/2010-Admn.—In pursuance of ACC's Order No. 4/11/2011-EO(SM.I) dated 31st May 2011, the President is pleased to appoint Ms. Minakshi Ghose, IA&AS(81) as Joint Secretary in the National Commission for Women under the Ministry of Women and Child Development, in the pay band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus grade pay of Rs. 10,000/- with effect from 1st June, 2011 (forenoon) for

a tenure upto 4th December, 2012 or until further orders, whichever is earlier.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

#### MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 4th August 2011

No. 12034/4/2011-Estt.—The President is pleased to appoint Shri E. Sathish Naidu, Assistant, Grade-I, Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited (TRIFED) to the post of Assistant Private Secretary to Hon'ble Minister of Tribal Affairs (Shri V. Kishore Chandra Deo) in PB-2 (Rs. 9,300—34,800/- + grade pay Rs. 4,800/-) w.e.f. forenoon of 29.07.2011 on purely temporary and co-terminus basis.

A. K. SAHA, Under Secy.

The 5th August 2011

No. 12034/1/2011-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Sukhdev Singh Kajla to the post of Ist P.A. in the personal staff of Hon'ble Minister of State for Tribal Affairs (Shri Mahadeo Singh Khandela) in PB-2 (Rs. 9,300—34,800/- + grade pay Rs. 4,800/-) on co-terminus basis w.e.f. 20.01.2011 (FN) till further orders or till the Hon'ble MOS(TA) desires his services, whichever is earlier.

A. K. SAHA, Under Secy.

The 10th August 2011

No. 12034/4/2011-Estt.(i)—The President is pleased to appoint Shri Paolienlal Haokip, Under Secretary, Lok Sabha Secretariat to the post of Additional Private Secretary to Hon'ble Minister of Tribal Affairs (Shri V. Kishore Chandra Deo) in PB-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-) w.e.f. forenoon of 02.08.2011 on purely temporary and co-terminus basis till the tenure of the Hon'ble MTA or till his services are required by the Minister or until further orders, whichever is earlier.

A. K. SAHA, Under Secy.

No. 12034/4/2011-Estt.(ii)—The President is pleased to appoint Shri M.B.C. Vinod kumar, a regular P.A. and P.S. (ad-hoc), in the Ministry of Communications & IT, Department of Posts to the post of Ist P.A. to the Hon'ble Minister of Tribal Affairs (Shri V. Kishore Chandra Deo) in PB-2 (Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/-) w.e.f. forenoon 04.08.2011 on purely temporary and co-terminus basis till the tenure of the Hon'ble MTA or till his services are required by the Minister or until further orders, whichever is earliest.

A. K. SAHA, Under Secy.

The 12th August 2011

No. 11019/1/2005-Estt.—In pursuance of Ministry of Statistics & Programme Implementation's Office Order No.

12015/4/2011-ISS dated 22.06.2011 and Office Order No. A. 32013/02/2010-Estt.I dated 19.07.2011 of FOD, NSSO, Ministry of Statistics & Programme Implementation, the President is pleased to appoint Shri Siladitya Chaudhuri, as Deputy Director General in the Ministry of Tribal Affairs with effect from the forenoon of 05.08.2011.

A. K. SAHA, Under Secy.

No. 12034/4/2011-Estt.—The President is pleased to appoint Ms. Malvika Mehta, a Senior Committee Assistant in Lok Sabha Secretariat to the post of Assistant Private Secretary to the Hon'ble Minister of Tribal Affairs (Shri V. Kishore Chandra Deo) in PB-2 (Rs. 9,300—34,800/- + grade pay Rs. 4,800/-) w.e.f. forenoon of 08.08.2011 on purely temporary and co-terminus basis till the tenure of the Hon'ble MTA or till her services are required by the Hon'ble Minister or until further orders, whichever is earliest.

A. K. SAHA, Under Secy.

The 16th August 2011

No. 19011/15/2011-Estt.—The President is pleased to appoint Dr. (Smt.) Sadhana Rout, IIS(84), as Joint Secretary in the Ministry of Tribal Affairs in the pay band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus grade pay of Rs. 10,000/- w.e.f. forenoon of 11.08.2011 for the balance period of her Central deputation of five years i.e. upto 15.07.2015 or until further orders, whichever event takes place earlier.

A. K. SAHA, Under Secy.

DEPARTMENT OF POSTS, INDIA  
O/o THE CHIEF POSTMASTER GENERAL  
MAHARASHTRA CIRCLE

Mumbai-400 001, the 6th May 2011

Sub : Promotion and Posting in Assistant Superintendent of posts (General Central Services, Group 'B'—Gazetted).

No. STA/6-8/2011—The Chief Postmaster General, Maharashtra Circle, Mumbai is pleased to appoint the following Inspector's line officials on regular basis in Assistant Superintendent of Posts (GCS Group 'B'—Gazetted) in the scale of pay of Rs. 9,300—34,800/- with grade pay Rs. 4,600/- in PB-2 with effect from the date of assumption of charge and until further orders.

The officials on promotion to Assistant Superintendent of Posts (General Central Services, Group 'B'—Gazetted) are allotted to the Regions in Maharashtra Postal Circle mentioned against their names:—

Sl. No.	Name of the officials	Designation	Region to which allotted on promotion in ASP
1	2	3	4
1.	Sh. D. Y. Desmukh	SDI (P) Karjat (Ahmednagar Dn)	Pune
2.	Sh. D. B. Suryawanshi	SDI (P) South Sub Dn. Pandharpur	Pune

1	2	3	4
3.	Sh. S. N. Shastri	SDI (P) Udgir	Aurangabad
4.	Sh. M. A. Patki	IP Dapoli	Goa
5.	Smt. V. S. Kapse (Goa)	IP Kagal Sub Dn	Goa
6.	Smt. L. D. Kodwani	IP Offg. SPCC	Mail Management
7.	Sh. G. P. Datar	Offg. ASP South Sub Dn. Solapur	Pune
8.	Smt. S.S. Rattesar	Offg. ASP Navi Mumbai	Mail Management
9.	Sh. V.J. Sawant	IP (Offg. ASP AP TMO)	Mail Management
10.	Smt. Geeta C. Salian	Offg. ASP (T) West Dn.	Mumbai
11.	Smt. R.S. Dalvi	Offg. ASP (BD) Navi Mumai Dn.	Mumbai
12.	Sh. V. S. Kulkarni	Offg. ASP karad (W)	Pune
13.	Sh. M. Ravishankar	Offg. ASP-II, North Dn	Mumbai
14.	Sh. R.A. Awatade	Offg. ASP SPCC	Mail Management
15.	Smt. P.V. Kamat	Offg. ASP (Bag) CBO Parel	Mumbai
16.	Sh. S.R. Pathak	Offg. ASP (N) Agd.	Aurangabad
17*.	Sh. G. J. Monde	HQ Ratnagir Dn. SPCC)	Goa
18.	Sh. M. M. Salve	IP (Offg. ASP SPCC)	Mail Management
19.	Sh. S.W. Walvekar	IP Uran Islampur, Goa MDG Sangli	
20.	Sh. A.R. Mahadik	IP (Offg. ASP, APSO (Inland)	Mail Management
21.	Smt. N.N. Doshi	IP (U) Mumbai PSD	Mumbai
22.	Shri V. S. Kumbhar	IP (BD) RO Mumbai	Mumbai
23.	Mrs. N. S. Gandhi	CI Thane Central Dn.	Mumbai
24.	Sh. S. S. Sawant	SDI(P) Mumbai City North West Dn.	Mumbai
25.	Sh. K.B. Jadhav	SD(I) Shirpur, Aurangabad	Aurangabad
26.	Sh. G.P. Palsule	IP Tech. RO Mumbai	Mumbai
27.	Sh. D. L. Khade	Platform Insp. Nagpur	Nagpur
28.	Sh. C.D. Kajrolkar	IP CPSO, Mumbai Stg Dn	Mail Management
29.	Sh. M.M. Nikam	SDI (P) South Sub Dn. Yavatmal	Nagpur
30.	Sh. P.M. Dang	IP (Stg) CO Mumbai	Circle Office
31.	Sh. R. S. Botlawar	SDI(P) Hingoli Sub. Dn.	Aurangabad
32.	Smt. M.R. Tawde	IP % PMG (FP & Mktg) on deputation to CO	Mail Management

1	2	3	4
33.	Sh. S.A.K. Pillai	SDI (P) South Dn	Mumbai
34.	Sh. V.P. Bhoge	SDI(P) Chanda East Sub Dn. Chandrapur	Nagpur
35.	Sh. M. M. Medar	IP Mails Sn. C.O.	Mail Management
36.	Sh. G.B. Ambhore	SDI(P) Washim Sub Dn. Akola	Nagpur
37.	Sh. S.D. Kharat	SDI (I) West Dn.	Circle Office
38.	Sh. H.S. Agawane	SDI(P) Saswad, Pune Mfl Dn.	Pune
39.	Sh. R.V. Palekar	SDI Parbhani Sub Dn.	Aurangabad
40.	Sh. M.S. Nawallu	SDI(P) Bhokar, Nanded	Aurangabad

Selection of officials at Sl. No. 35 to 38 above is against the vacancies reserved for SC category and Sl. No. 39 to 40 is against the vacancies reserved for ST category.

In respect of reserved category candidates i.e. SC/ST candidates "Promotion of the candidates is provisional subject to verification of their caste status. Head of the office will take an undertaking from the officials to this effect at the time of their relieving and ensure verification of caste status within one month. After verification necessary entries may invariably be made in the service books of the officers concerned in terms of instructions contained in DO P&T OM No. 36011/16/80-Est.(SCT) dt. 27.02.81, No. 42012/8/87-Est.(SCT) dt. 14.10.87 and OM No. 36012/36(22)/89-Est.(SCT) dt. 16.06.1989.

The Postmaster General of the Regions to which these officials are allotted will please ensure the same.

The Regional Postmasters General will issue further posting order in respect of officials allotted to Mumbai/Pune/Nagpur/Aurangabad and Goa Region.

The Regional Postmasters General/Divisional Heads are requested to ensure that no disciplinary/vigilance case is pending/contemplated against the officials and no officials are undergoing any punishment such as stoppage of increments, reduction to lower stage of pay/grade etc. Such cases may be intimated to CO, Mumbai immediately and the officials should not be relieved for their promotional posts.

The officials on promotion shall exercise option for fixation of pay within one month as per the extent orders on the subject. The option once exercised shall be final.

The Postmasters General/Divisional Heads concerned will relieve the officials within 15 days failing which it will be presumed that the officials are not interested in promotion and their names will be deleted and their case will not be considered for promotion for 1 year. In such cases, Regional Postmasters General/Divisional Heads will forward their declination of promotion letter to this office within one month from the date of issue of this memo positively for further disposal.

Any request from the officials for change in allotment/posting will not be entertained unless the join their promotional posts. The officials should be relieved under office arrangement and directed to join their new posting immediately.

All the officials at the time of their relief should submit their self appraisal in the prescribed form to their Divisional head or to the controlling authority. Similarly, the reporting officers will also write the ACRs of the officials within the stipulated time and forward the Crs to the new office only after the ACRs are reviewed by the Reviewing Officer. They should send a report on this.

Necessary charge reports may be sent to all concerned in due course.

P. D. KASAR, Asstt. Postmaster General (Staff)

## MINISTRY OF RAILWAYS

### (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 12th August 2011

No. E(GP)2008/3/4—The President is pleased to appoint the under mentioned 65 Group 'B' officers of Mechanical Engineering Department of Indian Railways, to Group 'A'/ Junior Scale of Indian Railway Service of Mechanical Engineers (IRSME) with effect from 24.06.2011 on the Railways mentioned as under :—

#### PANEL FOR 2009-2010

##### Name of the Officer

S/Shri

C. L. W.

1. J. C. Saha
2. B. C. Ghosh

##### Central Railway

1. S. A. Ansari
2. D. N. Shenoy
3. Avdesh Kumar
4. S. N. Kadam
5. T. N. Mohod (SC) : Promoted against SC vacancy.
6. H. D. Sawade (ST) : Promoted against ST vacancy.

D. M. W.

1. G. S. Khagta
2. M. I. Alam
3. D. S. Tanwar
4. Rajinder Kumar

D. L. W.

1. T. P. Singh
2. Anupam Chaudhary
3. Jitendra Agarwal

## East Coast Railway

1. A. K. Maharana
2. J. K. Sahu
3. Chakradhar Sahu

## Eastern Railway

1. Dilip Saha
2. Swapan Kumar Das-II
3. A. Roychowdhury
4. G. N. Singh

## I. C. F.

1. S. Muthu Kumar
2. D. Neelakandan
3. N. Ranjitraj (SC) : Promoted against SC vacancy.

## North Central Railway

1. R. P. Tripathi

## Northeast Frontier Railway

1. M. L. Deb
2. B. Nath

## Northern Railway

1. Raman Kumar Singhal
2. Anil Kumar Gupta
3. Arvind Kumar Dutta
4. R. P. Ram (SC) : Promoted against SC vacancy.
5. Rajesh Kumar (SC) : Promoted against SC vacancy.
6. Rattan Lal (SC) : Promoted against SC vacancy.

## R. C. F.

1. J. S. Pannu
2. Sunil Kapoor
3. Kamal Kumar (SC) : Promoted against SC vacancy.

## R. W. F.

1. P. M. Jayaramgowda
2. K. Karuppaiah

## South Central Railway

1. E. Prasad
2. Hari Vedomurthy
3. G. Appa Rao
4. K. Subbarayudu (ST) : Promoted against ST vacancy.
5. K. Venkataramana
6. N. Ramakrishna Raju

## South East Central Railway

1. M. R. Yadav
2. R. V. Ranga Rao

## South Eastern Railway

1. S. P. Singha Roy
2. S. C. Behra
3. B. K. Behra
4. R. R. Naik
5. K. Roy Chowdhury
6. S. Polley
7. S. K. Bhattacharya
8. N. Guha
9. S. K. Hazra
10. S. K. Mondal (SC) : Promoted against SC vacancy.

## Southern Railway

1. S. Venkateswaran
2. M. Chidambaravelan
3. B. Anand (SC) : Promoted against SC vacancy.

## South Western Railway

1. M. Balakrishnan
2. H. Vijayakumar (SC) : Promoted against SC vacancy.

## West Central Railway

1. S. K. Singh
2. N. K. Mishra
3. O. P. Shrivastava

V. K. GUPTA, Secy.  
(Railway Board)

New Delhi, the 18th August 2011

No. ERB-I/2007/10/4—Shri Vijay Kumar, Private Secretary of Ministry of Social Justice and Empowerment while working as Special Officer in the office of Minister of State of Railways (Shri Bharatsinh Solanki), retired from Service w.e.f. 31.07.2011 (AN).

V. K. GUPTA, Secy.  
(Railway Board)

---

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

New Delhi, the 23rd August 2011

No. A-12025/1/2010-E.II(Vol.II)—The President is pleased to appoint Shri Sunil Kumar as Assistant Executive Engineer (Civil) of Central Engineering Service (Roads) Group 'A' in the Ministry of Road Transport and Highways, New Delhi in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with the Grade Pay



of Rs. 5,400/- with effect from 02.05.2011 (F. N.) and until further orders.

D. R. SHARMA, Under Secy.

### MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 19th August 2011

No. 28/2011 (F. No. 2/1/2010-Adm.II)—In pursuance of the provisions contained in the Department of Personnel & Training's OM No. 5/7/2011-CS.I(U) dated 11.08.2011, Shri M. M. Saxena, a regular Section Officer of the Ministry of Power Cadre of CSS is appointed to the grade of Under Secretary, on ad hoc basis, in the Central Electricity Authority with effect from the forenoon of 12th August, 2011, until further orders.

MADHUKAR SOOD, Under Secy.

No. 27/2011 (F. No. 2/11/2010-Adm.II)—Consequent upon his inclusion in the CSS Senior Selection Grade (Director) Select List for the year 2011, the President is pleased to appoint Shri V. K. Bhatia, a Selection Grade (Deputy Secretary) Officer of the Central Secretariat Service, as Director in the Ministry of Power with effect from the forenoon of 18th August, 2011, until further orders.

MADHUKAR SOOD, Under Secy.

### MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 8th August 2011

No. 08/2011 (F. No. 2/2/2011-Admn)—The President is pleased to appoint Shri Rahul Bhandari, IAS (PB : 97) as Private Secretary to the Hon'ble Minister for Water Resources (Shri Pawan Kumar Bansal) at the level of Director, 'on lateral shift' basis with effect from 13th July, 2011 (FN) upto the balance period of his deputation tenure of five years i.e. upto 28.06.2014 or on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever is the earliest.

D. K. PALIWAL, Under Secy.

### MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 8th August 2011

No. A-11019/1/2006-Admn.—Consequent upon his empanelment of Principal Staff Officer for the Select List

Year 2011 by Department of Personnel and Training vide O. M. No. 1/1/2011-CS.II(A) dated 18th July, 2011, the President is pleased to appoint Shri I. S. Noonwal, Senior Principal Private Secretary to the post of Principal Staff Officer (PSO) in Central Secretariat Stenographer Service cadre of this Ministry in the Pay Band-4 (Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- w.e.f. 18.07.2011 (F/N) and until further orders.

JITENDER KUMAR, Under Secy.

No. A-32022/1/2011-Admn.I—Consequent upon his inclusion in the Selection Grade (Deputy Secretary) Select List of CSS for the year 2006 by the Department of Personnel and Training vide their Office Memorandum No. 4/4/2009-CS.I (D) dated 20.11.2009, the President is pleased to promote Shri A. Bhattacharyya, Grade-I (Under Secretary) of the CSS retired from the Office of Land and Development Officer, an attached Office of the Ministry of Urban Development, to the post of Deputy Secretary on notional basis w.e.f. 01.07.2006.

2. The above appointment has been made in implementation of the Order dated 11.03.2011, passed by the Hon'ble Principal Bench, Central Administrative Tribunal, New Delhi in O.A. No. 993/2011 filled by Shri A. Bhattacharyya versus Union of India and Ors.

JITENDER KUMAR, Under Secy.  
(Admn.)

The 16th August 2011

No. A-22012/1/94-Admn.I—The President is pleased to appoint Dr. Sudhir Krishna, IAS (KN : 77) as Secretary in the Ministry of Urban Development w.e.f. 10.08.2011 (F/N).

JITENDER KUMAR, Under Secy.  
(Admn.)

The 17th August 2011

No. A-22012/1/94-Admn.I(Pt.)—The President is pleased to appoint Shri Arun Kumar Misra, IAS (UP : 76) as Secretary in the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation w.e.f. 10.08.2011 (F/N).

JITENDER KUMAR, Under Secy.  
(Admn.)